



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 86]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 14, 2009/पौष 24, 1930

No. 86]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 14, 2009/PAUSA 24, 1930

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2009

का.आ. 139(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 2100(अ), तारीख 25 अगस्त, 2008 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के 412.380 कि.मी. से 431.300 कि.मी. (जालंधर-अमृतसर सेक्शन) तक के भूखंड का निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 13 सितम्बर, 2008 को “इंडियन एक्सप्रेस” (अंग्रेजी) और “जन बाणी” (पंजाबी) दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और, सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

पंजाब राज्य के अमृतसर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के 412.380 कि.मी. से 431.300 कि.मी. (जालंधर-अमृतसर सेक्शन) तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

| क्रम संख्या | जिले का नाम | तहसील/ तालुक का नाम | गांव का नाम | सर्वेक्षण/ खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | क्षेत्रफल | | भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम |
|-------------|-------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|-------------|---------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | (के-एम में) | वर्ग मीटर में | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | अमृतसर | बाबा बकाला | (1) दूधा थेह (ब्यास) एच.बी.-9 | 77आर 21 मिन | निजी | प्लॉट | 0-5 | 126 | निर्मल सिंह और अन्य |
| | | | | 78आर 16 मिन | निजी | प्लॉट | 0-19 | 480 | गुरशरण सिंह और अन्य पुत्र दलजीत सिंह |
| | | | | 78आर 17 मिन | निजी | प्लॉट | 1-6 | 657 | गुरशरण सिंह और अन्य पुत्र दलजीत सिंह |
| | | | | 78आर 25 मिन | निजी | प्लॉट | 0-19 | 480 | निर्मल सिंह और अन्य |
| | | | | 84आर 3 मिन | पंचायत | असिंचित | 0-10 | 759 | ग्राम पंचायत |
| | | | | 84आर 6 मिन | पंचायत | असिंचित | 1-2 | 556 | ग्राम पंचायत |
| | | | | 84आर 7 मिन | पंचायत | असिंचित | 2-19 | 1492 | ग्राम पंचायत |
| | | | | 84आर 8 मिन | पंचायत | असिंचित | 0-14 | 354 | ग्राम पंचायत |
| | | | | 84आर 15 मिन | पंचायत | असिंचित | 2-18 | 1467 | ग्राम पंचायत |
| | | | | 85आर 11 मिन | पंचायत | असिंचित | 1-18 | 961 | ग्राम पंचायत |
| | | | | 85आर 12 मिन | पंचायत | असिंचित | 0-9 | 227 | ग्राम पंचायत |
| | | | | 85आर 18 मिन | पंचायत | असिंचित | 1-14 | 860 | ग्राम पंचायत |
| | | | | 85आर 19 मिन | पंचायत | असिंचित | 3-1 | 1543 | ग्राम पंचायत |
| | | | | 85आर 20 मिन | पंचायत | असिंचित | 0-15 | 379 | ग्राम पंचायत |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|--|-------------------|-----------------|------------|-------------|--------------|---|
| | | | | 85आर 23 मिन | पंचायत | असिंचित | 2-8 | 1214 | ग्राम पंचायत |
| | | | | 137 मिन | रेलवे | असिंचित | 3-6 | 1669 | केन्द्र सरकार (रेलवे) |
| | | | | 138 मिन | रेलवे | असिंचित | 0-19 | 480 | केन्द्र सरकार (रेलवे) |
| | | | | 447 मिन | निजी | असिंचित | 0-17 | 430 | लखा सिंह और अन्य मुस्तारियन |
| | | | | 446 मिन | निजी | सिंचित | 0-4 | 102 | लखा सिंह पुत्र सुखईन सिंह मुस्तारियन |
| | | | | | | योग | 28-3 | 14236 | |
| | | (2) उमरा नंगल एच बी 22 | | 12आर/ 27 मिन | निजी | अकृषित | 0-11 | 278 | राजबीर सिंह और अन्य |
| | | | | 17आर/ 22 मिन | ग्राम पंचायत | अकृषित | 0-6 | 152 | ग्राम पंचायत (मौल मंडी) |
| | | | | 17आर/ 23/1 मिन | ग्राम पंचायत | अकृषित | 0-10 | 253 | ग्राम पंचायत |
| | | | | 17आर 23/2 मिन | निजी | कृषि | 0-4 | 101 | सोहन सिंह और अन्य |
| | | | | | | योग | 1-11 | 784 | |

[फा. सं. भाराप्र/बीओटी/11019/8/2003/एलए]

प्रभाकर, उपसचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**(Department of Road Transport and Highways)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 14 January, 2009

S.O. 139(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number S.O. 2100(E), dated the 25 August, 2008, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the public purpose of building (widening/four laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 1, on the stretches of land from Km. 412.380 to Km. 431-300 (Jalandhar—Amritsar Section) in the State of Punjab;

And, whereas, the substance of the said notification has been published in "Indian Express" (English) and "Jag Bani" (Punjabi), both dated the 13th September, 2008, under sub-section (3) of Section 3A of the said Act;

And, whereas, no objection has been received from any person by the competent authority;

And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule annexed her are to be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 412.380 to Km 431.300 (Jalandhar – Amritsar Section) of the National Highway No. 1 in District Amritsar in the State of PUNJAB

| Serial number | Name of the district | Name of the tehsil /taluk | Name of the village | Survey /Khasra number | Type of land | Nature of land | Area | | Name of the land owner/ Interested persons |
|---------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|--|
| | | | | | | | (in K-M) | In square meter | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Amritsar | Baba Bakala | (1) Dudha Theh (Beas) H.B-9 | 77R 21 min | Private | Plot | 0-5 | 126 | Nirmal Singh & Others |
| | | | | 78 R 16 min | Private | Plot | 0-19 | 480 | Gursharan Singh & Others S/o Daljit Singh |
| | | | | 78 R 17 min | Private | Plot | 1-6 | 657 | Gursharan Singh & Others S/o Daljit Singh |
| | | | | 78 R 25 min | Private | Plot | 0-19 | 480 | Nirmal Singh & Others |
| | | | | 84 R 3 min | Panchayat | Unirrigated | 1-10 | 759 | Gram Panchayat |
| | | | | 84 R 6 min | Panchayat | Unirrigated | 1-2 | 556 | Gram Panchayat |
| | | | | 84 R 7 min | Panchayat | Unirrigated | 2-19 | 1492 | Gram Panchayat |
| | | | | 84 R 8 min | Panchayat | Unirrigated | 0-14 | 354 | Gram Panchayat |
| | | | | 84 R 15 min | Panchayat | Unirrigated | 2-18 | 1467 | Gram Panchayat |
| | | | | 85 R 11 min | Panchayat | Unirrigated | 1-18 | 961 | Gram Panchayat |
| | | | | 85 R 12 min | Panchayat | Unirrigated | 0-9 | 227 | Gram Panchayat |
| | | | | 85 R 18 min | Panchayat | Unirrigated | 1-14 | 860 | Gram Panchayat |
| | | | | 85 R 19 min | Panchayat | Unirrigated | 3-1 | 1543 | Gram Panchayat |
| | | | | 85 R 20 min | Panchayat | Unirrigated | 0-15 | 379 | Gram Panchayat |
| | | | | 85 R 23 min | Panchayat | Unirrigated | 2-8 | 1214 | Gram Panchayat |
| | | | | 137 min | Railway | Unirrigated | 3-6 | 1669 | Central Govt. (Railway) |
| | | | | 138 min | Railway | Unirrigated | 0-19 | 480 | Central Govt. (Railway) |
| | | | | 447 min | Private | Unirrigated | 0-17 | 430 | Lakha Singh & Others Mustarian |
| | | | | 446 min | Private | Irrigated | 0-4 | 102 | Lakha Singh S/o Surain Singh Mushtari |
| | | | | | | Total | 28-3 | 14236 | |
| | | | (2) Umra Nangal H B 22 | 12R/ 27 min | Private | Uncultivated | 0-11 | 278 | Rajbir Singh & Others |
| | | | | 17R/ 22 min | Gram Panchayat | Uncultivated | 0-6 | 152 | Gram Panchayat (Mali Mandi) |
| | | | | 17R/ 23/1 min | Gram Panchayat | Uncultivated | 0-10 | 253 | Gram Panchayat |
| | | | | 17R 23/2 min | Private | Cultivated | 0-4 | 101 | Sohan Singh & Others |
| | | | | | | Total | 1-11 | 784 | |

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2009

का.आ. 140(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 2101(अ), तारीख 25 अगस्त, 2008 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के 431.300 कि.मी. से 444.180 कि.मी. और 447.980 कि.मी. से 454.800 कि.मी. (जालंधर-अमृतसर सेक्शन) तक के भूखंड का निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुसूक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 13 सितम्बर, 2008 को “इंडियन एक्सप्रेस” (अंग्रेजी) और “जग बाणी” (पंजाबी) दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है ;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

पंजाब राज्य के अमृतसर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के 431.300 कि.मी. से 444.180 कि.मी. और 447.980 कि.मी. से 454.800 कि.मी. (जालंधर-अमृतसर सेक्शन) तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

| सं. नं. | जिले का नाम | तहसील /तलुक का नाम | गांव का नाम | निरीक्षण नं./ खसरा नं. | भूमि की किस्म | भूमि की अवस्था | क्षेत्रफल | | भूस्वामी/अन्य हितबद्ध व्यक्ति का नाम |
|---------|-------------|--------------------|------------------------|------------------------|-----------------|----------------|------------|-----------|--|
| | | | | | | | कनाल -मरला | वर्ग मीटर | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | अमृतसर | अमृतसर | चौहान ह.ब.128 | 69 मिन | निजी | गै.म. | 1-6 | 657 | आबादी देह |
| | | | | | | जोड़ | 1-6 | 657 | |
| 2. | अमृतसर | अमृतसर | मलीयां ह.ब.130 | 15 आर/5 मिन | निजी | सिंचाई अधीन | 0-3 | 76 | श्रीमती लखविन्दर कौर पत्नी सूरत सिंह मुश्तरी |
| | | | | 16 आर/1 मिन | निजी | सिंचाई अधीन | 0-16 | 404 | तरसेम सिंह और अन्य पुत्र बचितर सिंह |
| | | | | 16 आर/2 मिन | निजी | सिंचाई अधीन | 0-16 | 405 | तरसेम सिंह और अन्य पुत्र बचितर सिंह |
| | | | | 17 आर/6 मिन | निजी | गैर मुमकिन | 0-2 | 51 | सुखविन्दर सिंह पुत्र गुरपाल सिंह |
| | | | | 17 आर/7 मिन | निजी | गैर मुमकिन | 0-13 | 329 | सुखविन्दर सिंह और अन्य |
| | | | | 17 आर/8/1 मिन | निजी | गैर मुमकिन | 0-7 | 177 | सुखविन्दर सिंह और अन्य |
| | | | | 17 आर/8/2 मिन | निजी | सिंचाई अधीन | 0-7 | 177 | सुखविन्दर सिंह पुत्र गुरपाल सिंह |
| | | | | 17 आर/9 मिन | निजी | सिंचाई अधीन | 0-11 | 278 | सुखविन्दर सिंह पुत्र गुरपाल सिंह |
| | | | | 17 आर/26 मिन | निजी | गैर मुमकिन | 0-8 | 202 | आत्मा राम पुत्र मंगू राम मुश्तरी |
| | | | | 88 मिन | प्रो. सरकार | नहर | 1-15 | 885 | प्रोविन्शियल सरकार |
| | | | | 92 मिन | प्रो. सरकार | गैर मुमकिन | 2-12 | 1315 | प्रोविन्शियल सरकार (ड्रेनेज विभाग) |
| | | | | 525 मिन | जुमला मुश्तर का | रास्ता | 0-1 | 25 | मुश्तरका मालकान |
| | | | | | | जोड़ | 8-11 | 4324 | |
| 3. | अमृतसर | अमृतसर | जौडियाला गुरू ह.ब. 135 | 43 आर 18/2 मिन | निजी | गैर मुमकिन | 0-4 | 101 | तरलोचन सिंह पुत्र अमर सिंह |
| | | | | | | जोड़ | 0-4 | 101 | |
| 4. | अमृतसर | अमृतसर | निजरपुरा ह.ब. 144 | 109/2 मिन | निजी | सिंचाई अधीन | 0-2 | 51 | श्रीमती सुखविन्दर कौर और अन्य |
| | | | | 111 मिन | निजी | सिंचाई अधीन | 0-5 | 126 | मैसर्स जैकशन लाबोर्टरी प्राईवेट लिमिटेड द्वारा जुगल किशोर मैनेजिंग डायरेक्टर |
| | | | | | | जोड़ | 0-7 | 177 | |

NOTIFICATION

New Delhi, the 14 January, 2009

S.O. 140(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 2101(E), dated the 25th August, 2008, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the public purpose of building (widening/four laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 1 on the stretches of land from Km. 431.300 to Km. 444.180 and Km 447.980 to Km 454.800 (Jalandhar-Amritsar Section) in the State of Punjab;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Indian Express" (English) and "Jag Bani" (Punjabi), both dated the 13th September 2008, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority.

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers confirmed by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule annexed here are to be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretches of land from Km. 431.300 to Km 444.180 and Km 447.980 to Km 454.800 (Jalandhar – Amritsar Section) of the National Highway No. 1 in District Amritsar in the the State of PUNJAB.

| Serial number | Name of the district | Name of the taluk | Name of the village | Survey /Khasra number | Type of land | Nature of land | Area | | Name of the land owner/ Interested persons |
|---------------|----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------------|--|
| | | | | | | | (in K-M) | (in square meter) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Amritsar | Amritsar | (1) Chauhan HB128 | 69 Min | Private | Uncultivated | 1-6 | 657 | Abadi Deh |
| | | | | | | Total | 1-6 | 657 | |
| | | | (2) Mallian HB 130 | 15 R/ 5 min | Private | Cultivated | 0-3 | 76 | Smt. Lakhwinder Kaur W/o Surat Singh Mushtari |
| | | | | 16 R/ 1 min | Private | Cultivated | 0-16 | 404 | Tarsem Singh & Others S/o Bachittar Singh |
| | | | | 16 R/ 2 min | Private | Cultivated | 0-16 | 405 | Tarsem Singh & Others S/o Bachittar Singh |
| | | | | 17R / 6 min | Private | Uncultivated | 0-2 | 51 | Sukhwinder Singh S/o Gurpal Singh |
| | | | | 17R / 7 min | Private | Uncultivated | 0-13 | 329 | Sukhwinder Singh & Others |
| | | | | 17 R/ 8/1 min | Private | Uncultivated | 0-7 | 177 | Sukhwinder Singh & Others |
| | | | | 17 R/ 8 / 2 min | Private | Cultivated | 0-7 | 177 | Sukhwinder Singh S/o Gurpal Singh |
| | | | | 17 R/ 9 min | Private | Cultivated | 0-11 | 278 | Sukhwinder Singh S/o Gurpal Singh |
| | | | | 17 R/ 26 min | Private | Uncultivated | 0-8 | 202 | Atma Ram S/o Mangu Ram Mushtari |
| | | | | 88 min | Prov. Govt. | Canal | 1-15 | 885 | Provincial Govt. |
| | | | | 92 min | Prov. Govt. | Uncultivated | 2-12 | 1315 | Provincial Govt. (Drainage Department) |
| | | | | 525 min | Jumla Mushtarka | Way | 0-1 | 25 | Mushtarka Malkan |
| | | | | | | Total | 8-11 | 4324 | |
| | | | (3) Jandiala Guru HB 135 | 43 R 18/2 min | Private | Uncultivated | 0-4 | 101 | Tarlochan Singh S/o Amar Singh |
| | | | | | | Total | 0-4 | 101 | |
| | | | (4) NIjjar Pura HB 144 | 109/2 min | Private | Cultivated | 0-2 | 51 | Smt. Sukhwinder Kaur & Others. |
| | | | | 111 min | Private | Cultivated | 0-5 | 126 | M/s Jackson Laboratory Pvt. Ltd. Through Jugai Kishore Managing Director |
| | | | | | | Total | 0-7 | 177 | |

[F. No. NHA/BOT/11019/8/2003 /LA]

PRABHAKAR, Dy. Secy.